



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-20092024-257263
CG-OR-E-20092024-257263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3656]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2024/ भाद्र 27, 1946

No. 3656]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2024/ BHADRA 27, 1946

रेल मंत्रालय

(पूर्व तट रेलवे)

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 18 सितम्बर, 2024

रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा 20A के तहत सूचना

का.आ. 3995(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम 1989 (89 का 24 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इस के साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य में जगतसिंहपुर जिल्ले में विशेष रेलवे परियोजना, "सीजू और पारादीप कोचिंग यार्ड फ्लाईओवर लाइन (7.00 कि.मि.)" तक के निपादन के लिए आवश्यक है। एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम धारा 20-D की उप धारा-एक के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति उठाए।

प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी, तहसीलदार, कुजंग, (भूमि अधिग्रहण अधिकारी) ज़िला:- जगतसिंहपुर, राज्य :- ओडिशा, को लिखित रूप में की जाएगी, और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा, और उसके बाद, ऐसी सभी आपत्तियों

को सुनकर और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुमति या अस्वीकार कर देता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप धारा-(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजना एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी के अक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में संबलपुर जिले में विशेष रेलवै परियोजना "सीजू और पारादीप कोचिंग यार्ड फ्लाईओवर लाइन (7.00 कि.मि.)" संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि को संक्षम विवरण ।

जिला का नाम :- जगतसिंगपुर

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
1	बगदिया	554	144	0.1740	0.0971	चक	व्यक्तिगत
2	बगदिया	710	159	0.1012	0.0510	चक	व्यक्तिगत
3	बगदिया	32	145	0.0607	0.0607	चक	व्यक्तिगत
4	बगदिया	804/109	146	0.3238	0.1671	चक	व्यक्तिगत
5	बगदिया	693	147	0.1133	0.0376	चक	व्यक्तिगत
6	बगदिया	804/770	158	0.3804	0.0316	चक	व्यक्तिगत
7	बगदिया	145	156	0.1578	0.0639	चक	व्यक्तिगत
8	बगदिया	301	186	0.1133	0.1133	चक	व्यक्तिगत
9	बगदिया	804/94	187	0.4978	0.1720	चक	व्यक्तिगत
10	बगदिया	693	188	0.1416	0.1416	चक	व्यक्तिगत
11	बगदिया	94	189	0.5140	0.1696	चक	व्यक्तिगत
12	बगदिया	207	148	0.0526	0.0526	चक	व्यक्तिगत
13	बगदिया	92	149	0.3238	0.0826	घरबारी	व्यक्तिगत
14	बगदिया	804/617	151	0.2023	0.0506	चक	व्यक्तिगत
15	बगदिया	322	192	0.0243	0.0243	चक	व्यक्तिगत
16	बगदिया	667	191	0.2833	0.1627	चक	व्यक्तिगत
17	बगदिया	290	152	0.1578	0.0457	चक	व्यक्तिगत
18	बगदिया	110	153	0.0971	0.0405	चक	व्यक्तिगत
19	बगदिया	290	193	0.1740	0.1307	चक	व्यक्तिगत
20	बगदिया	804/175	194	0.2226	0.1360	घरबारी	व्यक्तिगत
21	बगदिया	52	154	0.0769	0.0469	चक	व्यक्तिगत
22	बगदिया	409	195	0.1659	0.1064	चक	व्यक्तिगत
23	बगदिया	511	222	0.5140	0.2246	चक	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
24	बगदिया	804/436	338	0.0971	0.0971	घरबारी	व्यक्तिगत
25	बगदिया	804/55	341	0.1862	0.0255	घरबारी	व्यक्तिगत
26	बगदिया	448	335	0.2185	0.2185	चक	व्यक्तिगत
27	बगदिया	804/101	333	0.2307	0.1607	चक	व्यक्तिगत
28	बगदिया	464	334	0.3683	0.2193	चक	व्यक्तिगत
29	बगदिया	133	329	0.4047	0.1408	चक	व्यक्तिगत
30	बगदिया	467	332	0.1619	0.1032	चक	व्यक्तिगत
31	बगदिया	804/292	330	0.2873	0.2873	घरबारी	व्यक्तिगत
32	बगदिया	804/277	330/2142			घरबारी	व्यक्तिगत
33	बगदिया	804/282	330/2145			घरबारी	व्यक्तिगत
34	बगदिया	804/283	330/2146			घरबारी	व्यक्तिगत
35	बगदिया	804/284	330/2147			घरबारी	व्यक्तिगत
36	बगदिया	804/760	330/2148			घरबारी	व्यक्तिगत
37	बगदिया	804/287	330/2150			घरबारी	व्यक्तिगत
38	बगदिया	804/764	330/2151			घरबारी	व्यक्तिगत
39	बगदिया	804/289	330/2152			घरबारी	व्यक्तिगत
40	बगदिया	804/290	330/2153			घरबारी	व्यक्तिगत
41	बगदिया	804/291	330/2154			घरबारी	व्यक्तिगत
42	बगदिया	638	328	0.1416	0.0304	चक	व्यक्तिगत
43	बगदिया	804/85	327	0.2550	0.0502	घरबारी	व्यक्तिगत
44	बगदिया	804/553	327/2401			घरबारी	व्यक्तिगत
45	बगदिया	804/554	327/2402			घरबारी	व्यक्तिगत
46	बगदिया	804/555	327/2403			घरबारी	व्यक्तिगत
47	बगदिया	804/556	327/2404			घरबारी	व्यक्तिगत
48	बगदिया	804/557	327/2405			घरबारी	व्यक्तिगत
49	बगदिया	804/558	327/2406			घरबारी	व्यक्तिगत
50	बगदिया	804/559	327/2407			घरबारी	व्यक्तिगत
51	बगदिया	804/588	327/2432			घरबारी	व्यक्तिगत
52	बगदिया	19	326	0.4168	0.0757	चक	व्यक्तिगत
53	बगदिया	346	321	0.4330	0.1190	चक	व्यक्तिगत
54	बगदिया	235	325	0.5180	0.1586	चक	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
55	बगदिया	733	324	0.6556	0.1797	चक	व्यक्तिगत
56	बगदिया	234	322	0.0890	0.0890	चक	व्यक्तिगत
57	बगदिया	804/616	323	0.0202	0.0202	घरबारी	व्यक्तिगत
58	बगदिया	649	320	1.2586	0.2950	चक	व्यक्तिगत
59	बगदिया	27	319	0.2550	0.1667	चक	व्यक्तिगत
60	बगदिया	758	318	0.6313	0.0607	घरबारी	व्यक्तिगत
61	बगदिया	804/392	318/2251			घरबारी	व्यक्तिगत
62	बगदिया	804/393	318/2252			घरबारी	व्यक्तिगत
63	बगदिया	804/394	318/2253			घरबारी	व्यक्तिगत
64	बगदिया	804/440	318/2290			घरबारी	व्यक्तिगत
65	बगदिया	804/441	318/2291			घरबारी	व्यक्तिगत
66	बगदिया	804/442	318/2292			घरबारी	व्यक्तिगत
67	बगदिया	804/443	318/2293			घरबारी	व्यक्तिगत
68	बगदिया	804/444	318/2294			घरबारी	व्यक्तिगत
69	बगदिया	804/445	318/2295			घरबारी	व्यक्तिगत
70	बगदिया	804/446	318/2296			घरबारी	व्यक्तिगत
71	बगदिया	804/447	318/2297			घरबारी	व्यक्तिगत
72	बगदिया	804/448	318/2298			घरबारी	व्यक्तिगत
73	बगदिया	804/449	318/2299			घरबारी	व्यक्तिगत
74	बगदिया	804/450	318/2300			घरबारी	व्यक्तिगत
75	बगदिया	804/451	318/2301			घरबारी	व्यक्तिगत
76	बगदिया	804/452	318/2302			घरबारी	व्यक्तिगत
77	बगदिया	804/453	318/2303			घरबारी	व्यक्तिगत
78	बगदिया	804/454	318/2304			घरबारी	व्यक्तिगत
79	बगदिया	804/455	318/2305			घरबारी	व्यक्तिगत
80	बगदिया	804/521	318/2370			घरबारी	व्यक्तिगत
81	बगदिया	804/522	318/2371			घरबारी	व्यक्तिगत
82	बगदिया	804/523	318/2372			घरबारी	व्यक्तिगत
83	बगदिया	804/569	318/2415			घरबारी	व्यक्तिगत
84	बगदिया	8	312	0.1862	0.0194	चक	व्यक्तिगत
85	बगदिया	290	313	0.5180	0.5180	चक	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
86	बगदिया	706	317	0.4654	0.0150	चक	व्यक्तिगत
87	बगदिया	463	314	0.0850	0.0113	चक	व्यक्तिगत
88	बगदिया	403	310	0.4330	0.0036	चक	व्यक्तिगत
89	बगदिया	602	312/1901	0.2428	0.0688	चक	व्यक्तिगत
90	बगदिया	804/549	311	0.4897	0.3448	घरबारी	व्यक्तिगत
91	बगदिया	804/329	311/2186			घरबारी	व्यक्तिगत
92	बगदिया	804/424	311/2276			घरबारी	व्यक्तिगत
93	बगदिया	804/425	311/2277			घरबारी	व्यक्तिगत
94	बगदिया	804/426	311/2278			घरबारी	व्यक्तिगत
95	बगदिया	804/427	311/2279			घरबारी	व्यक्तिगत
96	बगदिया	804/428	311/2280			घरबारी	व्यक्तिगत
97	बगदिया	804/429	311/2281			घरबारी	व्यक्तिगत
98	बगदिया	804/430	311/2282			घरबारी	व्यक्तिगत
99	बगदिया	804/431	311/2283			घरबारी	व्यक्तिगत
100	बगदिया	804/432	311/2284			घरबारी	व्यक्तिगत
101	बगदिया	804/433	311/2285			घरबारी	व्यक्तिगत
102	बगदिया	804/434	311/2286			घरबारी	व्यक्तिगत
103	बगदिया	804/543	311/2392			घरबारी	व्यक्तिगत
104	बगदिया	295	1400	0.4047	0.3796	चक	व्यक्तिगत
105	बगदिया	336	1363/1876	0.0486	0.0113	चक	व्यक्तिगत
106	बगदिया	804/826	1415	0.4978	0.4306	चक	व्यक्तिगत
107	बगदिया	595	1363/1877	0.0445	0.0445	घरबारी	व्यक्तिगत
108	बगदिया	336	1363/2501			घरबारी	व्यक्तिगत
109	बगदिया	328	1364	0.1619	0.0789	चक	व्यक्तिगत
110	बगदिया	526	1365	0.3035	0.2274	चक	व्यक्तिगत
111	बगदिया	363	1366	0.2792	0.2598	चक	व्यक्तिगत
112	बगदिया	156	1369	0.4816	0.2497	चक	व्यक्तिगत
113	बगदिया	294	1368	0.2388	0.1036	चक	व्यक्तिगत
114	बगदिया	804/324	1367	0.3521	0.0563	घरबारी	व्यक्तिगत
115	बगदिया	804/316	1367/2176			घरबारी	व्यक्तिगत
116	बगदिया	804/317	1367/2177			घरबारी	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
117	बगदिया	804/318	1367/2178			घरबारी	व्यक्तिगत
118	बगदिया	804/319	1367/2179			घरबारी	व्यक्तिगत
119	बगदिया	804/320	1367/2180			घरबारी	व्यक्तिगत
120	बगदिया	804/321	1367/2181			घरबारी	व्यक्तिगत
121	बगदिया	804/322	1367/2182			घरबारी	व्यक्तिगत
122	बगदिया	804/323	1367/2183			घरबारी	व्यक्तिगत
123	बगदिया	804/119	1370	0.3683	0.0862	चक	व्यक्तिगत
124	बगदिया	157	1389	0.2631	0.1995	चक	व्यक्तिगत
125	बगदिया	160	1388	1.2950	0.7592	सारद -iii	व्यक्तिगत
126	बगदिया	159	1390	0.2145	0.0069	सारद -iii	व्यक्तिगत
127	बगदिया	160	1387	0.3602	0.2396	सारद -ii	व्यक्तिगत
128	बगदिया	160	1386	0.3116	0.1497	सारद -iii	व्यक्तिगत
129	बगदिया	804/153	1378	0.7892	0.0109	बगायत -ii	व्यक्तिगत
130	बगदिया	507	1381	0.0607	0.0243	सारद -iii	व्यक्तिगत
131	बगदिया	804/151	1386/1914	0.1821	0.0643	सारद -iii	व्यक्तिगत
132	बगदिया	64	1384	0.3238	0.1327	चक	व्यक्तिगत
133	बगदिया	811/2	1382	0.9308	0.2533	घरबारी	व्यक्तिगत
134	बगदिया	804/769	1240	1.2303	0.4877	चक	व्यक्तिगत
135	बगदिया	421	1239	0.1497	0.1344	चक	व्यक्तिगत
136	बगदिया	783	1707/1891	0.2023	0.0526	चक	व्यक्तिगत
137	बगदिया	804/765	1708	0.5666	0.0073	चक	व्यक्तिगत
138	बगदिया	402	1238	0.2185	0.2185	चक	व्यक्तिगत
139	बगदिया	697	1238/1886	0.1943	0.0542	चक	व्यक्तिगत
140	बगदिया	239	1689	0.2469	0.0522	चक	व्यक्तिगत
141	बगदिया	493	1688	0.0648	0.0380	चक	व्यक्तिगत
142	बगदिया	692	1682	0.0931	0.0522	चक	व्यक्तिगत
143	बगदिया	744	1679	0.6394	0.0664	चक	व्यक्तिगत
144	बगदिया	656	1678	0.6556	0.0308	चक	व्यक्तिगत
145	बगदिया	26	1234	0.5261	0.3764	चक	व्यक्तिगत
146	बगदिया	804/88	1233	0.5585	0.1777	चक	व्यक्तिगत
147	बगदिया	674	1232	0.6232	0.1198	चक	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
148	बगदिया	804/849	1212	0.4533	0.2210	चक	व्यक्तिगत
149	बगदिया	522	1211	0.4897	0.0263	चक	व्यक्तिगत
150	बगदिया	489	1213	0.1740	0.1740	चक	व्यक्तिगत
151	बगदिया	512	1210	0.3845	0.0716	चक	व्यक्तिगत
152	बगदिया	550	1214	0.3602	0.1453	चक	व्यक्तिगत
153	बगदिया	26	1215	0.4856	0.1315	चक	व्यक्तिगत
154	बगदिया	121	1209	0.1052	0.0886	चक	व्यक्तिगत
155	बगदिया	292	1206	0.2226	0.0797	चक	व्यक्तिगत
156	बगदिया	174	1205	0.4128	0.1473	चक	व्यक्तिगत
157	बगदिया	804/67	1204	0.2671	0.0809	चक	व्यक्तिगत
158	बगदिया	804/832	1146	0.4371	0.1412	चक	व्यक्तिगत
159	बगदिया	320	1147	0.6435	0.1473	चक	व्यक्तिगत
160	बगदिया	804/146	1150	0.4533	0.2056	चक	व्यक्तिगत
161	बगदिया	148	1116	0.1700	0.0712	चक	व्यक्तिगत
162	बगदिया	307	1112	0.4694	0.2440	चक	व्यक्तिगत
163	बगदिया	503	1114	0.1052	0.0243	चक	व्यक्तिगत
164	बगदिया	575	1113	0.2307	0.0745	चक	व्यक्तिगत
165	बगदिया	624	1106	0.3238	0.0765	चक	व्यक्तिगत
166	बगदिया	555	1106/1881	0.2792	0.1081	चक	व्यक्तिगत
167	बगदिया	136	1105	0.3480	0.1497	चक	व्यक्तिगत
168	बगदिया	167	1064	0.0728	0.0194	चक	व्यक्तिगत
169	बगदिया	410	1066	0.0486	0.0486	घरबारी	व्यक्तिगत
170	बगदिया	173	1068	0.0486	0.0486	सारद -ii	व्यक्तिगत
171	बगदिया	3	1071	0.0526	0.0526	घरबारी	व्यक्तिगत
172	बगदिया	167	1065	0.0243	0.0036	घरबारी	व्यक्तिगत
173	बगदिया	342	1067	0.0445	0.0445	सारद -ii	व्यक्तिगत
174	बगदिया	341	1069	0.0567	0.0567	घरबारी	व्यक्तिगत
175	बगदिया	3	1070	0.0769	0.0769	घरबारी	व्यक्तिगत
176	बगदिया	3	1073	0.0486	0.0081	घरबारी	व्यक्तिगत
177	बगदिया	279	1031	0.0405	0.0405	घरबारी	व्यक्तिगत
178	बगदिया	804/456	1031/2306	0.0405	0.0405	घरबारी	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
179	बगदिया	302	423	0.0405	0.0202	सारद -ii	व्यक्तिगत
180	बगदिया	241	422	0.0121	0.0121	सारद -ii	व्यक्तिगत
181	बगदिया	385	421	0.0162	0.0162	सारद -ii	व्यक्तिगत
182	बगदिया	420	418	0.0243	0.0724	सारद -ii	व्यक्तिगत
183	बगदिया	804/108	418/2003	0.0567		सारद -ii	व्यक्तिगत
184	बगदिया	804/112	418/2004	0.0324		घरबारी	व्यक्तिगत
185	बगदिया	221	415	0.0202	0.0259	घरबारी	व्यक्तिगत
186	बगदिया	804/327	415/2184	0.0121		घरबारी	व्यक्तिगत
187	बगदिया	461	414	0.0121	0.0121	सारद -i	व्यक्तिगत
188	बगदिया	567	413	0.0081	0.0081	सारद -ii	व्यक्तिगत
189	बगदिया	91	412	0.0486	0.0239	सारद -ii	व्यक्तिगत
190	बगदिया	91	411	0.0364	0.0162	सारद -ii	व्यक्तिगत
191	बगदिया	732	410	0.0283	0.0040	सारद -ii	व्यक्तिगत
192	बगदिया	732	409	0.0121	0.0121	सारद -ii	व्यक्तिगत
193	बगदिया	337	416	0.0890	0.0158	सारद -ii	व्यक्तिगत
194	बगदिया	811/6	408	0.0728	0.0267	घरबारी	व्यक्तिगत
195	बगदिया	720	405	0.0121	0.0065	सारद -i	व्यक्तिगत
196	बगदिया	804/515	404	0.0121	0.0061	सारद -i	व्यक्तिगत
197	बगदिया	147	402	0.1457	0.0550	सारद -i	व्यक्तिगत
198	बगदिया	401	400	0.0040	0.0040	सारद -ii	व्यक्तिगत
199	बगदिया	468	399	0.0162	0.0146	सारद -ii	व्यक्तिगत
200	बगदिया	811/3	398	0.0162	0.0162	घरबारी	व्यक्तिगत
201	बगदिया	804/833	397	0.0081	0.0065	सारद -ii	व्यक्तिगत
202	बगदिया	804/877	396	0.0162	0.0113	सारद -ii	व्यक्तिगत
203	बगदिया	804/835	395	0.0121	0.0073	सारद -i	व्यक्तिगत
204	बगदिया	729	394	0.0162	0.0105	सारद -ii	व्यक्तिगत
205	बगदिया	804/812	391	0.0324	0.0324	सारद -i	व्यक्तिगत
206	बगदिया	811/6	390	0.0243	0.0178	घरबारी	व्यक्तिगत
207	बगदिया	110	389	0.0648	0.0534	सारद -i	व्यक्तिगत
208	बगदिया	42	388	0.1214	0.0020	बगायत -i	व्यक्तिगत
209	बगदिया	804/927	379	0.0081	0.0214	सारद -i	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
210	बगदिया	804/926	379/2669	0.0162		सारद -i	व्यक्तिगत
211	बगदिया	804/878	378	0.0162	0.0401	सारद -i	व्यक्तिगत
212	बगदिया	804/140	378/2022	0.0081		सारद -i	व्यक्तिगत
213	बगदिया	804/872	378/2630	0.0202		सारद -i	व्यक्तिगत
214	बगदिया	804/873	378/2632	0.0202		सारद -i	व्यक्तिगत
215	बगदिया	804/874	378/2633	0.0202		सारद -i	व्यक्तिगत
216	बगदिया	804/875	378/2634	0.0202		सारद -i	व्यक्तिगत
217	बगदिया	547	372	0.1619		0.1619	सारद -i
218	बगदिया	16	371	0.0040	0.0045	सारद -ii	व्यक्तिगत
219	बगदिया	92	370	0.0486	0.0368	सारद -i	व्यक्तिगत
220	बगदिया	508	362	0.0526	0.0263	सारद -ii	व्यक्तिगत
221	बगदिया	804/704	361	0.0728	0.0494	सारद -ii	व्यक्तिगत
222	बगदिया	587	357	0.1052	0.0441	सारद -i	व्यक्तिगत
223	बगदिया	804/50	356	0.0405	0.0380	सारद -ii	व्यक्तिगत
224	बगदिया	804/55	341	0.1659	0.0219	घरबारी	व्यक्तिगत
225	बगदिया	811/6	339	0.0364	0.0283	घरबारी	व्यक्तिगत
226	बगदिया	537	292	0.0405	0.0336	चक	व्यक्तिगत
227	बगदिया	765	291	0.1133	0.0154	चक	व्यक्तिगत
228	बगदिया	405	290	0.0890	0.0093	चक	व्यक्तिगत
229	बगदिया	406	289	0.2145	0.0198	चक	व्यक्तिगत
230	बगदिया	42	288	0.7851	0.0809	चक	व्यक्तिगत
231	बगदिया	804/216	287	0.0202	0.0599	घरबारी	व्यक्तिगत
232	बगदिया	804/190	287/2061	0.4128		घरबारी	व्यक्तिगत
233	बगदिया	804/728	287/2067	0.0121		घरबारी	व्यक्तिगत
234	बगदिया	804/207	287/2078	0.0405		घरबारी	व्यक्तिगत
235	बगदिया	804/208	287/2079	0.0405		घरबारी	व्यक्तिगत
236	बगदिया	804/209	287/2080	0.0243		घरबारी	व्यक्तिगत
237	बगदिया	804/210	287/2081	0.0405		घरबारी	व्यक्तिगत
238	बगदिया	804/211	287/2082	0.0202		घरबारी	व्यक्तिगत
239	बगदिया	804/212	287/2083	0.0405		घरबारी	व्यक्तिगत
240	बगदिया	804/215	287/2087	0.0405		घरबारी	व्यक्तिगत

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा / प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र(हेक्टर में)	भूमि का किसम	भूमि का प्रकार
241	बगदिया	804/608	287/2449	0.0162		घरबारी	व्यक्तिगत
242	बगदिया	804/622	287/2460	0.0202		घरबारी	व्यक्तिगत
243	बगदिया	804/635	287/2469	0.0243		घरबारी	व्यक्तिगत
244	बगदिया	804/646	287/2478	0.0486		घरबारी	व्यक्तिगत
245	बगदिया	804/660	287/2490	0.0324		घरबारी	व्यक्तिगत
246	बगदिया	804/661	287/2491	0.0324		घरबारी	व्यक्तिगत
247	बगदिया	804/662	287/2492	0.0405		घरबारी	व्यक्तिगत
248	बगदिया	804/668	287/2495	0.0324		घरबारी	व्यक्तिगत
249	बगदिया	662	285	0.1214	0.0178	चक	व्यक्तिगत
250	बगदिया	211	284	0.2347	0.0368	घरबारी	व्यक्तिगत
251	बगदिया	212	256	0.2995	0.0279	चक	व्यक्तिगत
252	बगदिया	468	255	0.4168	0.0291	घरबारी	व्यक्तिगत
253	बगदिया	804/342	252	0.2023	0.0696	घरबारी	व्यक्तिगत
254	बगदिया	661	245	1.2626	0.0822	चक	व्यक्तिगत
TOTAL (BAGADIA)					15.638		

[फा. सं. पूतरे-नि- बीबीएस-एलए-सीजू-पारादीप फ्लाईओवर-7.00 कि.मि.]

सुधीर कुमार परिदा, मुख्य अभियन्ता, (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Coast Railway)

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 18th September, 2024

Notice under Section 20A of the Railways Act, 1989

S.O. 3995(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Siju and Paradeep Coaching Yard Flyover Line (7.00 Km.)**” in Jagatsinghpur district in the state of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely, **Tahasildar , Kujang District: - Jagatsinghpur, State- Odisha, Land Acquisition Officer for “Siju and Paradeep Coaching Yard Flyover Line (7.00 Km.)”** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely “Siju and Paradeep Coaching Yard Flyover Line (7.00 Km.)” in Jagatsinghpur district in the state of Odisha.

Name of District:- Jagatsinghpur

Sl No.	Name of Village	Khata No.	Khasra / Plot No.	Total area (in hector)	To be Acquired area (in hector)	Kisam of Land	Type of Land
1	Bagadia	554	144	0.1740	0.0971	Chaka	Private
2	Bagadia	710	159	0.1012	0.0510	Chaka	Private
3	Bagadia	32	145	0.0607	0.0607	Chaka	Private
4	Bagadia	804/109	146	0.3238	0.1671	Chaka	Private
5	Bagadia	693	147	0.1133	0.0376	Chaka	Private
6	Bagadia	804/770	158	0.3804	0.0316	Chaka	Private
7	Bagadia	145	156	0.1578	0.0639	Chaka	Private
8	Bagadia	301	186	0.1133	0.1133	Chaka	Private
9	Bagadia	804/94	187	0.4978	0.1720	Chaka	Private
10	Bagadia	693	188	0.1416	0.1416	Chaka	Private
11	Bagadia	94	189	0.5140	0.1696	Chaka	Private
12	Bagadia	207	148	0.0526	0.0526	Chaka	Private
13	Bagadia	92	149	0.3238	0.0826	Gharabari	Private
14	Bagadia	804/617	151	0.2023	0.0506	Chaka	Private
15	Bagadia	322	192	0.0243	0.0243	Chaka	Private
16	Bagadia	667	191	0.2833	0.1627	Chaka	Private
17	Bagadia	290	152	0.1578	0.0457	Chaka	Private
18	Bagadia	110	153	0.0971	0.0405	Chaka	Private
19	Bagadia	290	193	0.1740	0.1307	Chaka	Private
20	Bagadia	804/175	194	0.2226	0.1360	Gharabari	Private
21	Bagadia	52	154	0.0769	0.0469	Chaka	Private
22	Bagadia	409	195	0.1659	0.1064	Chaka	Private
23	Bagadia	511	222	0.5140	0.2246	Chaka	Private
24	Bagadia	804/436	338	0.0971	0.0971	Gharabari	Private
25	Bagadia	804/55	341	0.1862	0.0255	Gharabari	Private
26	Bagadia	448	335	0.2185	0.2185	Chaka	Private
27	Bagadia	804/101	333	0.2307	0.1607	Chaka	Private
28	Bagadia	464	334	0.3683	0.2193	Chaka	Private
29	Bagadia	133	329	0.4047	0.1408	Chaka	Private
30	Bagadia	467	332	0.1619	0.1032	Chaka	Private
31	Bagadia	804/292	330	0.2873	0.2873	Gharabari	Private
32	Bagadia	804/277	330/2142			Gharabari	Private

Sl No.	Name of Village	Khata No.	Khasra / Plot No.	Total area (in hector)	To be Acquired area (in hector)	Kisam of Land	Type of Land
33	Bagadia	804/282	330/2145			Gharabari	Private
34	Bagadia	804/283	330/2146			Gharabari	Private
35	Bagadia	804/284	330/2147			Gharabari	Private
36	Bagadia	804/760	330/2148			Gharabari	Private
37	Bagadia	804/287	330/2150			Gharabari	Private
38	Bagadia	804/764	330/2151			Gharabari	Private
39	Bagadia	804/289	330/2152			Gharabari	Private
40	Bagadia	804/290	330/2153			Gharabari	Private
41	Bagadia	804/291	330/2154			Gharabari	Private
42	Bagadia	638	328			0.1416	0.0304
43	Bagadia	804/85	327	0.2550	0.0502	Gharabari	Private
44	Bagadia	804/553	327/2401			Gharabari	Private
45	Bagadia	804/554	327/2402			Gharabari	Private
46	Bagadia	804/555	327/2403			Gharabari	Private
47	Bagadia	804/556	327/2404			Gharabari	Private
48	Bagadia	804/557	327/2405			Gharabari	Private
49	Bagadia	804/558	327/2406			Gharabari	Private
50	Bagadia	804/559	327/2407			Gharabari	Private
51	Bagadia	804/588	327/2432			Gharabari	Private
52	Bagadia	19	326	0.4168	0.0757	Chaka	Private
53	Bagadia	346	321	0.4330	0.1190	Chaka	Private
54	Bagadia	235	325	0.5180	0.1586	Chaka	Private
55	Bagadia	733	324	0.6556	0.1797	Chaka	Private
56	Bagadia	234	322	0.0890	0.0890	Chaka	Private
57	Bagadia	804/616	323	0.0202	0.0202	Gharabari	Private
58	Bagadia	649	320	1.2586	0.2950	Chaka	Private
59	Bagadia	27	319	0.2550	0.1667	Chaka	Private
60	Bagadia	758	318	0.6313	0.0607	Gharabari	Private
61	Bagadia	804/392	318/2251			Gharabari	Private
62	Bagadia	804/393	318/2252			Gharabari	Private
63	Bagadia	804/394	318/2253			Gharabari	Private
64	Bagadia	804/440	318/2290			Gharabari	Private
65	Bagadia	804/441	318/2291			Gharabari	Private
66	Bagadia	804/442	318/2292			Gharabari	Private
67	Bagadia	804/443	318/2293			Gharabari	Private
68	Bagadia	804/444	318/2294			Gharabari	Private
69	Bagadia	804/445	318/2295			Gharabari	Private
70	Bagadia	804/446	318/2296			Gharabari	Private

Sl No.	Name of Village	Khata No.	Khasra / Plot No.	Total area (in hector)	To be Acquired area (in hector)	Kisam of Land	Type of Land
71	Bagadia	804/447	318/2297			Gharabari	Private
72	Bagadia	804/448	318/2298			Gharabari	Private
73	Bagadia	804/449	318/2299			Gharabari	Private
74	Bagadia	804/450	318/2300			Gharabari	Private
75	Bagadia	804/451	318/2301			Gharabari	Private
76	Bagadia	804/452	318/2302			Gharabari	Private
77	Bagadia	804/453	318/2303			Gharabari	Private
78	Bagadia	804/454	318/2304			Gharabari	Private
79	Bagadia	804/455	318/2305			Gharabari	Private
80	Bagadia	804/521	318/2370			Gharabari	Private
81	Bagadia	804/522	318/2371			Gharabari	Private
82	Bagadia	804/523	318/2372			Gharabari	Private
83	Bagadia	804/569	318/2415			Gharabari	Private
84	Bagadia	8	312	0.1862	0.0194	Chaka	Private
85	Bagadia	290	313	0.5180	0.5180	Chaka	Private
86	Bagadia	706	317	0.4654	0.0150	Chaka	Private
87	Bagadia	463	314	0.0850	0.0113	Chaka	Private
88	Bagadia	403	310	0.4330	0.0036	Chaka	Private
89	Bagadia	602	312/1901	0.2428	0.0688	Chaka	Private
90	Bagadia	804/549	311	0.4897	0.3448	Gharabari	Private
91	Bagadia	804/329	311/2186			Gharabari	Private
92	Bagadia	804/424	311/2276			Gharabari	Private
93	Bagadia	804/425	311/2277			Gharabari	Private
94	Bagadia	804/426	311/2278			Gharabari	Private
95	Bagadia	804/427	311/2279			Gharabari	Private
96	Bagadia	804/428	311/2280			Gharabari	Private
97	Bagadia	804/429	311/2281			Gharabari	Private
98	Bagadia	804/430	311/2282			Gharabari	Private
99	Bagadia	804/431	311/2283			Gharabari	Private
100	Bagadia	804/432	311/2284			Gharabari	Private
101	Bagadia	804/433	311/2285			Gharabari	Private
102	Bagadia	804/434	311/2286			Gharabari	Private
103	Bagadia	804/543	311/2392	Gharabari	Private		
104	Bagadia	295	1400	0.4047	0.3796	Chaka	Private
105	Bagadia	336	1363/1876	0.0486	0.0113	Chaka	Private
106	Bagadia	804/826	1415	0.4978	0.4306	Chaka	Private
107	Bagadia	595	1363/1877	0.0445	0.0445	Gharabari	Private
108	Bagadia	336	1363/2501			Gharabari	Private

Sl No.	Name of Village	Khata No.	Khasra / Plot No.	Total area (in hector)	To be Acquired area (in hector)	Kisam of Land	Type of Land
109	Bagadia	328	1364	0.1619	0.0789	Chaka	Private
110	Bagadia	526	1365	0.3035	0.2274	Chaka	Private
111	Bagadia	363	1366	0.2792	0.2598	Chaka	Private
112	Bagadia	156	1369	0.4816	0.2497	Chaka	Private
113	Bagadia	294	1368	0.2388	0.1036	Chaka	Private
114	Bagadia	804/324	1367	0.3521	0.0563	Gharabari	Private
115	Bagadia	804/316	1367/2176			Gharabari	Private
116	Bagadia	804/317	1367/2177			Gharabari	Private
117	Bagadia	804/318	1367/2178			Gharabari	Private
118	Bagadia	804/319	1367/2179			Gharabari	Private
119	Bagadia	804/320	1367/2180			Gharabari	Private
120	Bagadia	804/321	1367/2181			Gharabari	Private
121	Bagadia	804/322	1367/2182			Gharabari	Private
122	Bagadia	804/323	1367/2183			Gharabari	Private
123	Bagadia	804/119	1370	0.3683	0.0862	Chaka	Private
124	Bagadia	157	1389	0.2631	0.1995	Chaka	Private
125	Bagadia	160	1388	1.2950	0.7592	Sarada-III	Private
126	Bagadia	159	1390	0.2145	0.0069	Sarada-III	Private
127	Bagadia	160	1387	0.3602	0.2396	Sarada-II	Private
128	Bagadia	160	1386	0.3116	0.1497	Sarada-III	Private
129	Bagadia	804/153	1378	0.7892	0.0109	Bagayat -II	Private
130	Bagadia	507	1381	0.0607	0.0243	Sarada-III	Private
131	Bagadia	804/151	1386/1914	0.1821	0.0643	Sarada-III	Private
132	Bagadia	64	1384	0.3238	0.1327	Chaka	Private
133	Bagadia	811/2	1382	0.9308	0.2533	Gharabari	Private
134	Bagadia	804/769	1240	1.2303	0.4877	Chaka	Private
135	Bagadia	421	1239	0.1497	0.1344	Chaka	Private
136	Bagadia	783	1707/1891	0.2023	0.0526	Chaka	Private
137	Bagadia	804/765	1708	0.5666	0.0073	Chaka	Private
138	Bagadia	402	1238	0.2185	0.2185	Chaka	Private
139	Bagadia	697	1238/1886	0.1943	0.0542	Chaka	Private
140	Bagadia	239	1689	0.2469	0.0522	Chaka	Private
141	Bagadia	493	1688	0.0648	0.0380	Chaka	Private
142	Bagadia	692	1682	0.0931	0.0522	Chaka	Private
143	Bagadia	744	1679	0.6394	0.0664	Chaka	Private
144	Bagadia	656	1678	0.6556	0.0308	Chaka	Private
145	Bagadia	26	1234	0.5261	0.3764	Chaka	Private
146	Bagadia	804/88	1233	0.5585	0.1777	Chaka	Private

Sl No.	Name of Village	Khata No.	Khasra / Plot No.	Total area (in hector)	To be Acquired area (in hector)	Kisam of Land	Type of Land
147	Bagadia	674	1232	0.6232	0.1198	Chaka	Private
148	Bagadia	804/849	1212	0.4533	0.2210	Chaka	Private
149	Bagadia	522	1211	0.4897	0.0263	Chaka	Private
150	Bagadia	489	1213	0.1740	0.1740	Chaka	Private
151	Bagadia	512	1210	0.3845	0.0716	Chaka	Private
152	Bagadia	550	1214	0.3602	0.1453	Chaka	Private
153	Bagadia	26	1215	0.4856	0.1315	Chaka	Private
154	Bagadia	121	1209	0.1052	0.0886	Chaka	Private
155	Bagadia	292	1206	0.2226	0.0797	Chaka	Private
156	Bagadia	174	1205	0.4128	0.1473	Chaka	Private
157	Bagadia	804/67	1204	0.2671	0.0809	Chaka	Private
158	Bagadia	804/832	1146	0.4371	0.1412	Chaka	Private
159	Bagadia	320	1147	0.6435	0.1473	Chaka	Private
160	Bagadia	804/146	1150	0.4533	0.2056	Chaka	Private
161	Bagadia	148	1116	0.1700	0.0712	Chaka	Private
162	Bagadia	307	1112	0.4694	0.2440	Chaka	Private
163	Bagadia	503	1114	0.1052	0.0243	Chaka	Private
164	Bagadia	575	1113	0.2307	0.0745	Chaka	Private
165	Bagadia	624	1106	0.3238	0.0765	Chaka	Private
166	Bagadia	555	1106/1881	0.2792	0.1081	Chaka	Private
167	Bagadia	136	1105	0.3480	0.1497	Chaka	Private
168	Bagadia	167	1064	0.0728	0.0194	Chaka	Private
169	Bagadia	410	1066	0.0486	0.0486	Gharabari	Private
170	Bagadia	173	1068	0.0486	0.0486	Sarada-II	Private
171	Bagadia	3	1071	0.0526	0.0526	Gharabari	Private
172	Bagadia	167	1065	0.0243	0.0036	Gharabari	Private
173	Bagadia	342	1067	0.0445	0.0445	Sarada-II	Private
174	Bagadia	341	1069	0.0567	0.0567	Gharabari	Private
175	Bagadia	3	1070	0.0769	0.0769	Gharabari	Private
176	Bagadia	3	1073	0.0486	0.0081	Gharabari	Private
177	Bagadia	279	1031	0.0405	0.0405	Gharabari	Private
178	Bagadia	804/456	1031/2306	0.0405	0.0405	Gharabari	Private
179	Bagadia	302	423	0.0405	0.0202	Sarada-II	Private
180	Bagadia	241	422	0.0121	0.0121	Sarada-II	Private
181	Bagadia	385	421	0.0162	0.0162	Sarada-II	Private
182	Bagadia	420	418	0.0243	0.0724	Sarada-II	Private
183	Bagadia	804/108	418/2003	0.0567		Sarada-II	Private
184	Bagadia	804/112	418/2004	0.0324		Gharabari	Private

Sl No.	Name of Village	Khata No.	Khasra / Plot No.	Total area (in hector)	To be Acquired area (in hector)	Kisam of Land	Type of Land
185	Bagadia	221	415	0.0202	0.0259	Gharabari	Private
186	Bagadia	804/327	415/2184	0.0121		Gharabari	Private
187	Bagadia	461	414	0.0121	0.0121	Sarada-I	Private
188	Bagadia	567	413	0.0081	0.0081	Sarada-II	Private
189	Bagadia	91	412	0.0486	0.0239	Sarada-II	Private
190	Bagadia	91	411	0.0364	0.0162	Sarada-II	Private
191	Bagadia	732	410	0.0283	0.0040	Sarada-II	Private
192	Bagadia	732	409	0.0121	0.0121	Sarada-II	Private
193	Bagadia	337	416	0.0890	0.0158	Sarada-II	Private
194	Bagadia	811/6	408	0.0728	0.0267	Gharabari	Private
195	Bagadia	720	405	0.0121	0.0065	Sarada-I	Private
196	Bagadia	804/515	404	0.0121	0.0061	Sarada-I	Private
197	Bagadia	147	402	0.1457	0.0550	Sarada-I	Private
198	Bagadia	401	400	0.0040	0.0040	Sarada-II	Private
199	Bagadia	468	399	0.0162	0.0146	Sarada-II	Private
200	Bagadia	811/3	398	0.0162	0.0162	Gharabari	Private
201	Bagadia	804/833	397	0.0081	0.0065	Sarada-II	Private
202	Bagadia	804/877	396	0.0162	0.0113	Sarada-II	Private
203	Bagadia	804/835	395	0.0121	0.0073	Sarada-I	Private
204	Bagadia	729	394	0.0162	0.0105	Sarada-II	Private
205	Bagadia	804/812	391	0.0324	0.0324	Sarada-I	Private
206	Bagadia	811/6	390	0.0243	0.0178	Gharabari	Private
207	Bagadia	110	389	0.0648	0.0534	Sarada-I	Private
208	Bagadia	42	388	0.1214	0.0020	Bagayat-II	Private
209	Bagadia	804/927	379	0.0081	0.0214	Sarada-I	Private
210	Bagadia	804/926	379/2669	0.0162		Sarada-I	Private
211	Bagadia	804/878	378	0.0162	0.0401	Sarada-I	Private
212	Bagadia	804/140	378/2022	0.0081		Sarada-I	Private
213	Bagadia	804/872	378/2630	0.0202		Sarada-I	Private
214	Bagadia	804/873	378/2632	0.0202		Sarada-I	Private
215	Bagadia	804/874	378/2633	0.0202		Sarada-I	Private
216	Bagadia	804/875	378/2634	0.0202		Sarada-I	Private
217	Bagadia	547	372	0.1619	0.1619	Sarada-I	Private
218	Bagadia	16	371	0.0040	0.0045	Sarada-II	Private
219	Bagadia	92	370	0.0486	0.0368	Sarada-I	Private
220	Bagadia	508	362	0.0526	0.0263	Sarada-II	Private
221	Bagadia	804/704	361	0.0728	0.0494	Sarada-II	Private
222	Bagadia	587	357	0.1052	0.0441	Sarada-I	Private

Sl No.	Name of Village	Khata No.	Khasra / Plot No.	Total area (in hecter)	To be Acquired area (in hecter)	Kisam of Land	Type of Land
223	Bagadia	804/50	356	0.0405	0.0380	Sarada-II	Private
224	Bagadia	804/55	341	0.1659	0.0219	Gharabari	Private
225	Bagadia	811/6	339	0.0364	0.0283	Gharabari	Private
226	Bagadia	537	292	0.0405	0.0336	Chaka	Private
227	Bagadia	765	291	0.1133	0.0154	Chaka	Private
228	Bagadia	405	290	0.0890	0.0093	Chaka	Private
229	Bagadia	406	289	0.2145	0.0198	Chaka	Private
230	Bagadia	42	288	0.7851	0.0809	Chaka	Private
231	Bagadia	804/216	287	0.0202	0.0599	Gharabari	Private
232	Bagadia	804/190	287/2061	0.4128		Gharabari	Private
233	Bagadia	804/728	287/2067	0.0121		Gharabari	Private
234	Bagadia	804/207	287/2078	0.0405		Gharabari	Private
235	Bagadia	804/208	287/2079	0.0405		Gharabari	Private
236	Bagadia	804/209	287/2080	0.0243		Gharabari	Private
237	Bagadia	804/210	287/2081	0.0405		Gharabari	Private
238	Bagadia	804/211	287/2082	0.0202		Gharabari	Private
239	Bagadia	804/212	287/2083	0.0405		Gharabari	Private
240	Bagadia	804/215	287/2087	0.0405		Gharabari	Private
241	Bagadia	804/608	287/2449	0.0162		Gharabari	Private
242	Bagadia	804/622	287/2460	0.0202		Gharabari	Private
243	Bagadia	804/635	287/2469	0.0243		Gharabari	Private
244	Bagadia	804/646	287/2478	0.0486		Gharabari	Private
245	Bagadia	804/660	287/2490	0.0324		Gharabari	Private
246	Bagadia	804/661	287/2491	0.0324		Gharabari	Private
247	Bagadia	804/662	287/2492	0.0405		Gharabari	Private
248	Bagadia	804/668	287/2495	0.0324		Gharabari	Private
249	Bagadia	662	285	0.1214	0.0178	Chaka	Private
250	Bagadia	211	284	0.2347	0.0368	Gharabari	Private
251	Bagadia	212	256	0.2995	0.0279	Chaka	Private
252	Bagadia	468	255	0.4168	0.0291	Gharabari	Private
253	Bagadia	804/342	252	0.2023	0.0696	Gharabari	Private
254	Bagadia	661	245	1.2626	0.0822	Chaka	Private
TOTAL (BAGADIA)					15.638		

[F. No. ECoR-CON-BBS-LA-SIJU-PARADEEP FLYOVER-7.00 KMS]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Construction-III)